

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - लिखतों के प्रकार के आधार पर

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत घट-बढ़	
	2023 (पीआर)	2024 (पी)	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
1. ऋण और जमा राशियां	12,96,066	15,69,186	7.5	21.1
	(63.0)	(63.8)		
ए) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना	1,35,725	1,98,611	28.5	46.3
	(6.6)	(8.1)		
बी) विदेशी मुद्रा उधारियाँ*	96,587	1,59,151	18.4	64.8
	(4.7)	(6.5)		
सी) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते	7,64,751	8,12,252	2.1	6.2
	(37.2)	(33.0)		
डी) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाते	1,64,786	2,28,483	16.7	38.7
	(8.0)	(9.3)		
2. प्रतिभूतियों/ बॉण्डों के निजी निर्गम	3,039	3,044	0.0	0.2
	(0.1)	(0.1)		
3. अन्य देयताएं	6,87,171	8,24,875	19.6	20.0
	(33.4)	(33.6)		
जिसमें से:				
ए) एडीआर/जीडीआर	1,18,681	1,50,363	28.6	26.7
	(5.8)	(6.1)		
बी) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	3,86,776	4,72,007	20.0	22.0
	(18.8)	(19.2)		
सी) भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/ विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	1,81,714	2,02,504	13.6	11.4
	(8.8)	(8.2)		
4. ऋणात्मक एमटीएम डेरिवेटिव	69,873	60,718		-13.1
	(3.4)	(2.5)		
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	20,56,148	24,57,823	15.3	19.5
	(100.0)	(100.0)		

टिप्पणियां: 1. पीआर: आंशिक रूप से संशोधित; पी: अनंतिम।

2. *: भारत में और विदेशों से अंतर-बैंक उधार और बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

4. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि पूर्ण संख्या को ₹ करोड़ में पूर्णकृत किया गया है।

5. नवीनतम बीआईएस दिशानिर्देशों के आधार पर, एमटीएम डेरिवेटिव को सितंबर 2022 तिमाही से इस विवरण में शामिल किया गया है।

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी, आरबीआई